OMANSH ENTERPRISES LIMITED

Reg. Office: B-507, 5th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi – 110001, CIN: L01100DL1974PLC241646 Email ID: omanshwork@gmail.com, Contact No. +91-8828488284

Date: 31st May, 2024

To The Listing Department BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai, Maharashtra – 400001

Sub.: INTIMATION UNDER REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

REF: OMANSH ENTERPRISES LIMITED (SCRIP CODE: 538537)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2024 which were considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on Friday, 24th May, 2024 through Video Conferencing have been published in newspapers namely "Jansatta", a Hindi Daily Newspaper and "Financial Express", an English Daily Newspaper on 25th May, 2024.

The cuttings of the above-mentioned newspapers evidencing the publication of the said audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2024 are enclosed herewith for your ready reference.

This is for your kind information and record.

Yours Faithfully

For OMANSH ENTERPRISES LIMITED

Anshu Kumari Agarwal Digitally signed by Anshu Kumari Agarwal DN: cn=Anshu Kumari Agarwal, c=Ni, st=Odisha, c=Personal, title=8304, serialNumber=08988ca6cefc8df90d 57687c68333d59ceebca9c8df7db1 5b67cd387a2ec58 Date: 2224 0.531 16.44:23+0530'

Anshu Kumari Agarwal COMPANY SECRETARY MEM. NO. A72422 Reg. Office: B-507, 5th Floor Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Encl: a/a

							जनसत	Π	25 मई, 202	24 1
वितृत्रे रूपना देपालियापन संहिता, २०१६ के तहत संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के लिए	iए ई-नीलामी पंजीकत कार्याला	तः बी-507, 5वीं मं	एटरप्राइजेज _{जिल, सेट्समैन} इउस,	बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 11000		311ईs	ीबीआई बैंक लिमिटेड, एन बबीसीसी ऑफिस कॉन्पलेट	ास, पूर्वी किदबई नग	र, नई दिल्ली - 1100	रेट बी, 023
ी की तिथि एवं समय: 17.06.2024 प्रात: 10.00 वजे से साथ 5.00 सजे त (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.11.2023 के	ह तहत नियुक्त 21 मार्च 2024	सीआईए र आईडी: omans	जः L01100DL1974P hwork@gmail-com	LC241646 फोज: +91-8828488284 ापरीबित वित्तीस परिषामों का उड़र	(f) IDB	I BANK 310	_{जोन (} ल सम्पति की बि	11-69297256/727 ट्रिनी के लिए		सूचना
अधीन निर्गामित देनदार (सीडी) के संयव और मशीनरी की बिद्धी। निर्गामित देन ही- बिंदमी- ई-नौलामी-प्लेटपॉर्म https://www.eauctions.co.in- के रायमे आएगी।	तदार के प्लांट		3 मही	(ताख रुपये व	के तहत अचल आस्तियों की बि	त्रण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त- क्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना				
संपत्ति आरक्षित मूल्य बयाना राशि बोली र	युद्धि राशि २.००००/-	विवरम	31.03.2 यो समाप	024 समाप्त हुए संगत 31.03.202	लेनदार अर्थात आईढीबीआई बैक	शेष रूप से कर्जदार(रों) – मैसर्स जैन टेक्स ऐंड लिमिटेड के पास बंधक∕प्रमारित निम्नवर्णित अच	ल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब	जा प्रतिमूत लेनदार आईई	विभिदेड के !	प्राधिकृत अधि
र्यत्र और मशीनरी (तेरह लाख चार (एक लाख तीस (पवा बेति में), कार्यालय हजार छ सौ तीस हजार रुपये रुपये	गस हजार 1 संचालन से कु ये मात्र) या 2 अवधि के लिए	श्रद्ध लाभ/(हानि) ((कर, असाम्रारण	.02 0.00 1.02	तक देय बकाया राशि रू. 77,72,9	वुका है, कर्जादार - मैसर्स जैन टेक्स ऐंड फैब अं 17,865.10 (रूपए सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख र 0-06-2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो	तत्तानवे हजार आठ सौ पैंसठ तथ	। पैसे दस मात्र) और 02–	05—2024 की प्रभावी तार्र	तेख से आगे र
न इत्यादि की विग्रेंगे। रूपये मात्र) मात्र) उसके नेयम और शर्तें इस प्रकार हैं: पुमोदित सेवा प्रदाता: लिंकर-टर इंकोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 'जैस	3 कर से पहले य	ाचारण वस्तुओं से पर की अवसि के लिए शुर रि⁄या असाधारण व	द्व लाम/(हानि)		चौरानवे लाख मात्र) तथा बयाना प्रतिभूत आस्ति का विवरण : श्री	जमा राशि जमा रू. 39,40,000 /— (रूपए उन्तालं परवेश कमार जैन द्वारा स्वाधिकृत अचल सम्पत्ति	नीस लाख चालीस हजार मात्र) होर्ग 'पुराना नंबर 488 / 51 और नया न	ो। बर प 1542 ए. खसरा नं		
", "जो है वहां है" और "दायित्वरहित" के आधार पर आयोजित की जाएगी। भी प्रक्रिया दस्तायेज जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-मीलामी	4 कर से पहले व भी ग्रोली फॉर्म, (असामारण औ	की अवमि के लिए क्रुब रि∕या असामारण व	র নাদ/(চাপি)		३८१, प्लॉट नंबर १७२ का भाग, परि महत्त्वपूर्ण तिथियां :	नाप 85 वर्गे गज, स्थित गली मुक्रेश मार्किट, गांधी न				
वधन पत्र, ऑनलाइन नीलाभी बिक्री के सामान्य नियम और शर्ते शामिल ww.eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं। संपर्क: श्री विजय पिपलिया 9i in@eauctions.co.in	9870099713 युद्ध लाभ /	ही अवधि के लिए (हानि) रि∕या असावारग		An diama be a pro-	बोली∕निविदा दस्तावेज की 30 मई, 2024	उपलब्धता निरीक्षण की तारीख ईएव संभावित खरीदार सम्परित का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं	मढी के साथ बोली जमा कर- 07 जून, 2024 शाम 5	बजे तक 10	ई—नीलामी की ता जून, 2024 पूर्व. 11 बजे	रे अप. 1
ने ने जहां कोई सफल बोलीदाता नहीं है, परिसमापक को किसी भी चरण के दौरा करने का अधिकार है।	रान ई-नीलामी विषकुओं के बा 6 इक्विटी शेवर	द) पूंजी		44) (426.20) (32.72) 56 355.00 10.56	 प्रतिमूत आस्ति की बिक्री प्रतिमूत जाएगी। 	ानराषण स्वयं कर सकत ह लेनदार अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए तथ	धा उसकी ओर से "जैसा है जहां है अ	ग्यार", "जो है जैसा है आंध	5 मिनट के असीमित र, "जो भी वहां है आधार" त	ं विस्तार व व्या 'दायित्वत्ती
ामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन स राश स्वत: 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। रकिया बंद होने पर जो बोलीदाता उव्यतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) व	8 प्रति शेवर आ	यांकन रिजर्व को छो य (प्रत्येक 10/– रु	c)		 उप्राशेवल सम्प्रतिन उप्रारिवर्णित सर्व 	वेत मूख से कम पर नहीं बेमी जाएगी। केसी तुटि / चूक / विसंगति / कमी इत्यादि के लिए को रस्तावेजा' में दिए गए नियमों एवं शतों के पूर्णतचा अवीन	ई जिम्मेदारी नहीं लेगा।			
ीदाता धोषित किया जाएगा और इस आशय की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के मा नो परिसमाधक के अनुमोदन के अधीन होगी।.	माध्यम से जारी 2. तरल (रु.)			06) (2.40) (6.20) 06) (2.40) (6.20)	वेबसाइट नामतः https://www.	रस्तावज" म दिए गए लियमा एव शता क पूणतया जवाल idbibank.in तथा www.bankeauctionwizard. एन्टेयर्स सिस्टन्स लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट :	.com से डाउनलोड भी किए जा सक	ਰੇ ਤੋਂ।		
विदाता को नीलामी में रखी गई संपत्तियों के संबंध में लागू सभी तरह के शुल्व वि करों, अन्य शुल्कों, दरों, मूल्यांकन शुल्क, आदि का वहन करना होगा। को बिना कोई कारण वताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वी	10 ज्यरोक संधी	(लिस्टिंग दायित्व क एक्सरोज के स	और प्रकटीकरण आवश्य १४४ लागर लेखावरीमिल	कताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन : वित्तीय परिणामों के विवरण के विरत्	से अप, 01.00 बजे तक, 5 मिन	ट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ आयोजित क व से (टेलि.) 011–69297275. (ई—मेल) kuldeep. तम्पर्क करें — सुम्री बी एम सुष्मिता से (टेलि.)	त्री जाएगी।			
त पर ई-नीलामी की कार्यवाही को स्थगित/रह करने का पूर्ण अधिकार है। रे राशी के भुगतान के बाद ही बिकी प्रमाणपत्र/समझौता केवल सफल बोली ल री किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा। ब्रिकी, 1	लगाने वाले के संख्यप्रीक्षा र	क उद्धरण है। विस् तमिति और 24 मई	तृत वित्तीय परिणामों औ . 2024 को आयोजित बै	र इस उद्धरण की समीक्षा की गई ठक में कंपनी के निदेशक मंडल झ	al Sushmitha.b@antaressyste रा 8. विज्ञप्ति का हिन्दी रूपान्तरण वैवर	ms.com एवं praveshmani.t@antaressystems. 1इट www.idbibank.com/hindi पर उपलब्ध है ।	.com			0-40482100
ान संसिता, 2016 के प्राचधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होग iv संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, परिसमापक की टीम के स	गी। वेबसाइट (w	www.bseindia.c	om) पर उपलब्ध है।	का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड) विनियम, 2015 के विनियमन 33	Table o Proger Providence and) हे लिए, कृपया आईक्षीबीआई बैंक लिमिटेड, प्रतिमूत लेन प्रतिमूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2 बिसुबित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि अध	002 के नियम 9(1) के तहत	15 दिन का काननी	नोटिस	
झके मोबाइल नंबर 9193911355 पर संपर्क किया जा सकता है। 5.2024 सीष्ट श्रुति गुम्रा (प	(परिसमापक)	क स्वतंत्र लेखा परी	प्राकों की रिपोर्ट पूरी हो क स्परिणाम और नोट्स	चुकी है और संबंधित रिपोर्ट का समा ' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जि	त नीलाम की जाएगी/बेची जाएगी श अस्वीकरण : सम्पत्ति का सीमांव	गैर बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज एवं लागत के र ल इससे सटी सम्पत्ति के साथ समुचित नहीं है	गथ तसन की जाएगी।		-	
ली मेटालाइट इको पच्चूचर लेब्स प्राइ आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00303/2017	इवेट लिमिटेड (सी) सेबी (एलजोर प्रनसार रोयर	डीजार) विनियम, 20	015 के विनियमन 42 व) जनुसार, बोर्ड ने खंड 10.1.8 (1) विरधारकों को निर्धारित करने के हि	aोलीदाता∕नीलामी खरीदार की दिनांक: 24.05.2024, स्थान: नई			हस्ता./-, प्र	धिकृत अधिकारी, आई	डीबी3सई बैंब
माबाइल: भ बाचार के लिए उपयोग किया जाने वाला ईमेल: MetaliteJiquidation@i बाईबीबीआई के साथ पंजीकृत परिसमापक का ई-मेल:guptashrutica@i	9873334797 बुधवार, ८ जू- agmail.com			ामाधान योजना का। में तय किया है। ओमांश एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लि हस्ता/)	🌮 Vaibhav	Global I	imito	4	
needed of the state of the stat	दिनांकः २४ मई, २	024		रेनू स प्रबंध निदेश	5	Regd. Off. : K-6B, Fa	iteh Tiba, Adarsh Nagar, J	laipur-302004;		
	स्थानः दिल्ली			खीआईएन: 077811		E-Mail: investor_relations@vaib		: www.vaibhavglob		A D C H 20
JAMNA A	AUTO INDU	STRIE	S LIMI	TED			Encouron on me c		(₹ in lacs, unless nsolidated	s otherwise st
Regd. Office:	e: Jai Springs Road, Industrial Area & Fax: 01732-251810/11 email: in	i, Yamuna Nagar wester.relations@	- 135001, Haryana gjaispring.com		S. No.	Particulars	31.03	Quarter Ended	Year E 3 31.03.2024	31.03.20
STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FIN	INANCIAL RESULTS FOR THE Q	UARTER AND Y	EAR ENDED MARC	(Rs. in Lakhs)	1 Total Income from 2 Other Income	Operations (Net)	(Aud 78,9 1,0			(Audite 2,69,091 2,762
S. No. Particulars	Qui Audited U	arter ended Inaudited A	Audited Audit	ear ended ad Audited	3 Total Income 4 Net Profit from O	dinary Activities (before tax and except	ional items) 3,5	58.09 70,187.92 79.80 3,039.53	3,06,759.65 19,001.62	2,71,854.
1 Total Income from operations	31.03.2024 3 64.014.54	1.12.2023 31	.03.2023 31.03.2		6 Net Profit from O	dinary Activities before tax (after excep dinary Activities after tax (after excepti- ive Income for the period (Comprising F	onal items) 2,10	55.43 3,039.53 05.11 2,334.12	18,195.47 12,673.51	14,130. 10,513.
2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	0		7,072.49 28,326	is no especto estano	8 Equity Share Capi	and Other Comprehensive Income (afte al	r tax)] 1,1	93.43 1,875.69 10.65 3,297.63		14,829. 3,297.
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax	7,796.73	7,380.39	7,072.49 28,326	27 22,938.00	9 Earnings Per Shar (for continuing an i) Basic EPS	e (of ₹ 2 each) d discontinued operations)		1.30 1.42	7.74	6.
(after exceptional items) 5 Total Comprehensive Income for the period		5,494.00	5,249.16 20.541	.45 16,836.79	ii) Diluted EPS			1.30 1.42 1.27 1.40	7.74	6
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after Other Comprehensive Income (after tax)]	ter tax) and 5,544.16	5,451.58	5,339.53 20,478	16,865.13	1 The above consolid the Board of Directo	ated financial results for the quarter and ye ors at their respective meetings held on 25	ear ended 31 March 2024 hav 3 May 2024. These financial	ve been reviewed by th results have been auc	e Audit Committee an lited by the Statutory A	d approved Auditors of
6 Equity Share Capital 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 8 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not and		3,987.25	3,986.93 3.988 86,330		Parent Company. 2 These consolidated	financial results have been prepared in acc	cordance with Indian Accourt	iting Standards ("Ind i	(S') prescribed under	Section 13
(In Rs.) Basic:	1.38	1.38		.15 4.23	Requirements) Reg	, 2013 read with the relevant rules there ulations 2015. Minimum Alternate Tax (MAT), wherever				a UISCIOS
Diluted: Notes :	1.37	1.37		4.21		idalone financial results of the Parent Com			(7 in lacs, unless Year E	
 The above consolidated financial results of Jamn referred as ""the Group"") for the quarter and year e by the Board of Directors in their respective meeting 	ended March 31, 2024 have be	e parent Com een reviewed b	pany') and its sub: w the Audit Commi	sidiaries (together tee and approved		Particulars	(Aud	.2024 31.03.202 ited) (Audited	3 31.03.2024 (Audited)	31.03.20 (Audite
 Information of standalone audited financial results in 	in terms of the SEBIListing Reg	gulations is as u	inder:	(Rs. in Lakhs)	Total Income Profit before tax	lanama	14,75	1.66 3,318.20	5,402.78	53,652.7 10,287.2
S. No. Particulars	Qua Audited U	arter ended	Y Audited Audite	ear ended	Total Comprehensive 5 The consolidated down subsidiaries	Income inancial results include the financial resul (collectively referred as 'the Group'):	1,94 Its of Parent Company and th		- I - concorrent	9,907.6 aries and st
1 Revenue from operations	31.03.2024 3	1.12.2023 31	.03.2023 31.03.2	Addied 024 31.03.2023 .48 223.182.95	A. VGL Retail Vent a. Shop TJC Lin	ures Limited, Mauritius				
2 Profit before tax 3 Total Comprehensive income for the period	8,698.14	7,258.38	6,862.47 32,427		i. Shop LC G	obal Inc., USA puls BV, Netherlands (acquired on 26 Septe	amber 2023)			
The above is an extract of the detailed format of F (Listing Obligation and Disclosure Requirements)						ply Limited, Hong Kong				
Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com			ompany at www.jais		b. STS (Guar C. STS Jewels Inc	ngzhou) Trading Limited, China , USA				
Date : May 24, 2024				P. S. Jauhar Director & CEO	D. STS Global Lim E. STS Global Lim	ited, Japan				
Place : Istanbul	(1) (2) (2 V		94 B	DIN 00744518	F. Valbhav Vistar I G. Valbhav Lifesty	e Limited, India				
्र न्या मे	वेक्स इंडस्ट्रीज लिगि बंस मवन–II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स,	नांगल राया, नई !	दिल्ली—110046	₩ DK JAIN		, Germany ng Private Limited, India Employee Stock Option Welfare Trust				
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरव	world.in/lumaxindustries, दूरमाष umaxmall.com, सीआईएन : L748	1: +91 11 4985	7832	GROUP	6 The Parent Compa ended 31 March 2	ny has allotted 1,12,556 and 6,51,344 equ 024 respectively, under the Company's v	rarious Employees Stock Op	of ₹ 2/-each for the qu tion Benefit Scheme	arter ended 31 March, s through Vaibhav Glo	2024 and y obai Emplo
LUMAN पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरव वेबसाइट: www.lumaxy		निमारी	के लिए		Stock Option Welf	are Trust at exercise price ranging from र 2 % of total expenditure (included in other ex	.00-₹394.00.			
LUMANX पंती. डार्वालय : दिरीव तत. हत्व बेबहाइट: www.lumaxy इमेल : lumaxshare@lur 31 मार्च, 2024 को			anviar						(7 in lacs, unless	
LUMANX पंगी. कार्यालय : दिलीय तल, हरव देवलाइट: www.lumaxx इमिल : lumaxshare@lur	त वित्तीय परिणा	मों का (१ लाख में	, जब तक कि अ			Particulars		-2023 31.03.202	Year E 3 31.03.2024	inded 31.03.20
LUMANX पंती. डार्वालय : दिरीव तत. हत्व बेबहाइट: www.lumaxy इमेल : lumaxshare@lur 31 मार्च, 2024 को	त वित्तीय परिणा समाप 31 म	मों का (१ लाख में त तिमाही ार्च 2024	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2023	Content and Broadca 8 In earlier years, the	sting expenses Parent Company received notices from t	31.03.2024 31-12 14,106.86 14,38 the Income Tax Department	-2023 31.03.202 7.28 10,777.7 "ITD") under Section	Year E 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for Ass	inded 31.03.20 41.504.0 sessment \
प्रिकार्थाः हिवेव यह सब कार्याः क्रियेव यह सब कार्याः क्रियेव यह सब कार्याः क्रियेव यह स्व कार्याः क्रियेव यह सामेकित अंकेसित विवरण परियालन से कुल राजस्व	त वित्तीय परिणा समाप 31 म (अं	मों का (र लाख में त तिमाही	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	8 In earlier years, the 2012-13 to Asses Assessment Year 2	sting expenses Parent Company received notices from t sment Year 2015-16. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 on techni	31.03.2024 31-12 14.106.86 14.38 the Income Tax Department it quarter, the Honorable Hig cal grounds. For Assessmen	-2023 31.03.202 7.28 10,777.7 "ITD") under Section th Court of Rajastha t Year 2012-13, the Ho	Year E 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for Ass has guashed the pr morable High Court of	inded 31.03.20 41,504.0 sessment \ roceedings Rajasthan
LUMANX क्षेत्र का स्वयः हिवेव एव. स्व स्वारः अष्ठभाव्यकः स्वितः भाववः क्षेत्र सामेकित अंके दिवत् विवरण	त वित्तीय परिणा अग् अग्	मों का (१ लाख में त तिमाही ार्च 2024 केंद्रित)	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2023 (अंकेक्षित)	8 In earlier years, the 2012-13 to Asses Assessment Year 2 granted stay order management does	stling expenses parent Company received notices from to sment Year 2015-16. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 on techni- on the Parent Company's petition. Base not expect any liability to arise out of these not expect any liability to arise out of these	31.03.2024 31-12 14,106.86 14,38 the Income Tax Department it quarter, the Honorable Hig cal grounds, For Assessmen d upon the nature and exter proceedings.	-2023 31.03.202 (7.28) 10.777.7 "ITD") under Section ph Court of Rajastha Vear 2012-13, the He mal expert opinion of the section of	Year E 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for Ass has guashed the pr morable High Court of trained by the Parent	inded 31.03.20 41,504.0 sessment 1 roceedings Rajasthan Company,
لالسمية المعادية المعادية ال معادية المعادية معادية معادية معادية معادية معادية معادية م معادية المعادية معادية معادية المعادية المعادية معادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية معادية معا معادية المعادية المعادية معادية مع معادية معادية معادية معادية معادية معادية معادية مع	त वित्तीय परिणा अग्म (अं ग	मों का (१ लाख में त तिमाही ार्च 2024 केशित) 44,268.79 2,999.33 5,217.51	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेसित) 2,63,659.47 10,105.76 15,917.39	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2023 (अंकंक्षित) 60,810.20 2,352.01 3,328.88	 8 In earlier years, th 2012-13 to Asses Assessment Year 1 granted stay order management does 9 The Board of Diret equity shares of 4 capital, interim dh 	sting expenses Parent Company received notices from t sment Year 2015-16. During the current 1013-14 to Assessment 2015-16 on techni- on the Parent Company's petition. Base not expect any liability to arise out of these tor's of the Parent Company in their meet 2/- each, subject to approval of shareholds (dends aggregating to 1 4.50/P per share	31.03.2024 31-12 14.106.86 14.38 the Income Tax Department (quarter, the Honorable Hig cal grounds. For Assessment d upon the nature and exter proceedings. ting dated 23 May 2024 havens. In addition to the above fi (7.100/ per Share per quart	2023 31,03.202 7.28 10,777.7 ("ITD") under Section th Court of Rajastha t Year 2012-13, the He mal expert opinion of e recommended final inal dividend of ₹1.5.	Year E 3 31.03.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ass has quashed the priorizable High Court of trained by the Parent dividend of ₹ 1.5/- pe - per share i.e., 75% of	inded 31.03.20 41,504. sessment " roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity sl
LUMAX भी कार्यसाः हितेव रख, सर भी कार्यसार अध्याज्यक मित्र : lumachare@lu 31 मार्च, 2024 क समेकित अंकेसित विवरण परिवालग से युव्ध राजस्व कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से युद्ध लाम (क्षमायारण मद से पहले)	त वित्तीय परिणा अग्म (आं ताद)	मों का (र लाख में त तिमाही ार्च 2024 केशित) 14,268.79 2,999.33	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेदिात) 2,63,659.47 10,105.76	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2023 (अंकेक्षित) 60,810.20 2,352.01	In earlier years, th 2012-13 to Asses Assessment Year 2 granted stay order management does 9 The Board of Direc capital, interim dh- dividend of ₹ 5.00/ 10 The Income Tax. D	sting expenses Parent Company reported notices from 1 somet Year 2015-16. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 on technic on the Parent Company's petition. Bass not expect any liability to arise out of these solutions of the Parent Company in their meet 2- each, subject to approval of shareholds idends aggregating to 2.4.50° per share per share have been declared during the c- partment ("the TO") conducted a Survey	31.03.2024 31-12 14.106.86 14.33 he income Tax Department (quarter, the Honorable Hij calgrounds, For Assessmen groceedings, ing dated 23 May 2024 haw rs. In addition to the above 6 (* 1.50°, per share per qua aurrent year.	-2023 31,03.202 77.28 10,777.7 ("TD") under Section ph Court of Rajastha Year 2012-13, the H4 mal expert opinion of a recommanded final inal dividend of ₹1.5, ter) were declared an 133A of the Act at the	Year E 3 31.03.2024 3 50,172.4 1.48 of the Act for Ass has guashed the pr morable High Court of tained by the Parent dividend of ₹ 1.5/- pe - per share i.e., 75% o td paid during the year premises of the Parent	inded 31.03.20 41.504.0 sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity st ar. Hence, 1 nt Compan
دلالهميد : हिवेव यह सब के ख्वांत : हिवेव यह सब होने : Lunaschare@bir 31 मार्च, 2024 के समेकित्त अंक्ट्रेसित विवरण परिवालग के बुख राजस्व कर पूर्व आपी के लिए युद्ध लाभ (सावायग पत में पहले) कर पूर्व अधी के लिए युद्ध लाभ कर प्रवास की आपी के लिए युद्ध लाभ इतिबंदी सेयर पूर्जी	त वित्तीय परिणा अग्म (आं ताद)	मों का (१ लाख में त त तिमाही 1 1र्च 2024 केशित) केशित) 2,999.33 5,217.51 3,606.69	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेशित) 2,63,659.47 10,105.76 15,917.39 11,101.83	समाप्त तिमाडी 31 मार्च 2023 (अंकेशिल) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2,074.97	8 In earlier years, th 2012-13 to Asses Assessment Year, granted stay orden management does 9 The Board of Direk equity shares of 4 capital, interim dh dividend of 4 5.00 10 The Income Taxo November 2021. 5 the Parent Compa	sling expenses Parent Company: received notices from t smm Year 2015 Louring the current 013-14 to Assessment 2015-16 on techni- on the Parent Company's petition. Bases not expect any lability to arise out of these stors of the Parent Company in their mere density approximation of 4.50° per strate- ned density approximation of 4.50° per strate- per strate have been declared during the regenter ("the TD") conducted a Survey ubaquently, the Parent Company's poron y received notices under Section 4.25°.	31.03.2024 31-12 14.106.86 14.38 Income Tax Department quarter. the Honorable Hi cligrounds. For Assessmen d upon the nature and exter proceedings. (1.30° per Share per qua urrent year. y proceeding under section iding all cooperation and new y proceeding under section iding all cooperation and new	2023 31,03,202 7,28 10,777,7, 17TD') under Section the Court of Rajastha ty Yaar 2012-13, the H mal expert opinion of e recommended final inal dividend of 1.5, frer) were declared an 133A of the Act at the essary data/documer 019-20 to Assessm	Year E 3 31.03.0024 3 50,172.4 1 48 of the Act for Ass has quashed the pr morable High Court of tained by the Parent dividend of ₹ 1.5/- pe prestare i.a., 75% o d paid during the year premises of the Parent ts/information.Durin treat Year 222-23 rec	inded 31,03,20 41,504,0 sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid n equity st ar. Hence, 1 nt Compan g current y
لالله अर्थनाः हितिय लह मर स्वित्र आर्थनाः क्रियेव लह मर समेकित अंग्रेजिया अंग्रेजिया समेकित अंग्रेजिया विवरण परियालन से गुल राजस्य कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से युद्ध लाभ (असमात्यम मद से पहले) कर पूर्व कावी के लिए युद्ध लाभ (असमात्यम मद से पहले) कर पूर्व कावी के लिए युद्ध लाभ बुति येरा अंग्रेजी के लिए युद्ध लाभ बुति येरा अंग्रेजी के लिए युद्ध लाभ बुति येरा अंग्रेजी के लिए युद्ध लाभ	त वित्तीय परिणा अग्मा अग् (सं)	मों का (१ लाख में त त तिमाही नं 1र्च 2024 केशित) में4,268.79 2,999.33 5,217.51 3,606.69 3,298.92 3,298.92	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेशित) 2,63,659.47 10,105.76 15,917.39 11,101.83 10,830.57	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2023 (अंकेशिल) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,506.38	In endire years, the 2012-13 to Assessment Year granted stay order and a start of the analytic starts of the applity starts of the the planet of the November 2021. Starts the Parent Compa information. As on 11 During current years	sting expenses Parent Company: received notices from to smont Year: 2015 - Louring the current 013 - 14 to Assessment 2015 - 16 on techni- on the Parent Company: Intelime and smott expect of the parent Company in their mere 24 - each, subject to apprival of shann-bdd tiends aggregating to 14 - 54.0°, ere shann- partimet "Une To Company in their mere per share have been declared during the separations" (The Terrent Company is proving undeal upon the nature, the management - Subp 71.0° Limited, Uk (vahol) womed by Uk (vahol) womed by Uk (vahol) womed by Danagement (The Terrent Company is proving y received notices under Section 142.0° (Vahol) womed by the nature, the management - Subp 71.0° Limited (Vakohl) womed by Danagement (The Terrent Company is proving the terrent	31.03.2024 31-12 14.106.86 14.38 hencome Tax Department quarter, the Honorable Hi adgrounds. For Assessmen d upon the nature and exter proceedings. In addition to the above for (1.50°- per tax between the above f(1.50°- per tax between tax between tax f(1.50°- per tax between tax f(1.50°-	2023 31,03,202 7,28 10,77,77, "ITD") under Section ih Gourt of Rajastha ty Yaar 2012-13, lihe H al expert opinion of the al expert opinion of the the all dividend of the f.1.5 ther) were declared an 133A of the Act at the sesary data/decume 2019-20 to Assessm lay to arise out of these and take in Mindful South	Yes E 3 31.03.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ass has quashed the private of the Act for Ass has quashed the private of the Act for Ass talande by the Parent dividend of ₹ 1.5/- per share i.e., 75% of dipald during the year premises of the Parent ts/information. Durin mit Year 2022-23 rec aproceedings. BV, Netherlands from	inded 31.03.20 41.504.0 sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity st ar. Hence, 1 nt Compan g current y quiring furt n an unrele
دسمی البار البال	त वित्तीय परिणा समाप् अ (अ (अ (अ) (अ) (अ) (अ) (अ) (अ) (अ) (अ)	मो का (१ लाख में त तिमाही 1र्च 2024 केशित) 74,268.79 2,999,33 5,217.51 3,606.69 3,298.92 934.77	, जब तक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेशित) 2,63,659.47 10,105.76 15,917.39 11,101.83 10,830.57 934.77 118.77	समाप्त तिगाही 31 मार्ग 2023 (अंकेहिंस) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,506.38 934.77	In endire years, the Sulf of the second se	sling approxes Parent Company: recoived notices from t ment Year: 2015 - Linu rights current 013-14 to Assessment 2015 - I for Instant, the current of the Parent Company in Interime each not expect of Longway in Interime each 2 - each, subject to approval of sharehold (died) aggraphic part of 4.50° are share per share have been declared during The capacity of the Parent Company in Interime againstim ("Inter 10°) Constants 4.30° are sharehold to the sharehold during The capacity of the Parent Company is provide data based upon the anary. The management is Rhop Table Instants, the manag	31.03.2224 31:12 14.106.86 14.38 he fincome Tax Department quarter, the Honorabe IR of a grounds, FO Assessment d upon the nature and east or proceedings. The proceedings reproduing and cooperation and ner (1) for Assessment Yon; per share per qua urrent year. y proceeding audies years and a start indices or otopect any lab usabilishy acquired 100%.	2023 31,03,202 7,28 10,777.7 ('TD') under Section /h Gourt of Rajasha Year 2012-13, theh M Gaut of Rajasha Ivar 2012-13, theh M Gaut of Rajasha Ivar 2012-13, theh Gaut of Section Inal dividend of ₹1,5, fter) were declared an Inal dividend of ₹1,5, fter (I) and the fter (I) and (I) and (I) and (I) and (I) g contingent conside and (I) and (I) and (I) and I and and (I) and (I) and (I) and I and (I) and I and (I) and (I) and (I) and I	Year E 3 31.03.2024 148 of the Act for Ass has quashed the private of the Act for Ass has quashed the private of the Act for Ass has quashed the private of the Act for Ass private of the Act for Ass premises of the Paren premises of the Paren premises of the Paren provide and the Act for Ass premises of the Paren provide and the Act for Ass provide and the Act for Ass provide and the Act for Ass ass assessed on the Act for Ass the Act for Assessed on the Act for Assessed on the Act for the Act for Assessed on the Act for Assessed on the Act for the Act for Assessed on the Act for Assessed on the Act for Assessed on the Act for the Act for Assessed on the Act for Assessed on	inded 31.03.20 41.504.(sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity sh ar. Hence, t nt Compan g current y quiring furt m.an unrele acs (equiva and accour
لالسميدة المعالمة المعالمة معالمة المعالمة المعالمة المعالمة معالمة المعالمة معالمة المعالمة المعالمة المعالمة معالمة معالم معالمة معالمة المعالمة المعالمة معالمة م معالمة معالمة مع	त वित्तीय परिणा अग्मा (अं (ग) (ग) (ग) (ग) (ग) (ग) (ग) (ग) (ग) (ग)	मों का (१ लाख में त (१ लाख में ग (१ लाख में ग (१ लाख में 1 (१ ला में 1	्राजय (तक कि अ समापद वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेशित) 2,63,659,47 10,105.76 15,917.39 11,101.83 10,830.57 934.77 118.77 2,63,659,47 12,608.50	समाप्त (तेमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेरेश) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2.074.97 2,556.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61	In endire years, the Sule of the second second second second second Assessment Year (granted stay order granted stay order granted stay order grants, interrin do dividend of 6.00/ 10 The Income Taxo November 2021; S the Parent Company Information. As on Homena Taxo EURO 11.54 lace); In accordance with manufacturing abi 12 Origing pervisions y 12 Origing pervisions y 10 Origing perv	sling approxes Parent Company: received notices from 1 ment Year: 2015 - Linu rights current 013 - 14 to Assessment 2015 - 16 to Interhin on the Parent Company in Interim reaching the Company in Interim reaching the Company in Interim experts and the parent Company in Interim reaching the Company in Interim reaching the Company in Interim per Shan have been declared during Tack approximations (The INTER) Constants Assessment per Shan have been declared during Tack approximation (The INTER) Constants Assess approximation (The INTER) Constants Assess and the Assess and the Interim Shan and the Interim ex. By Data Linuted, UK (which) even and subservation of 11 Add Datas Explorations Common ex. 8, 25 department 2023. The Tair value on Intel Ass 103 — Busiess Committanton : Intel Ass 103 — Busiess Committanton : Intel and asses astrongthem the digital business.	31.0.22224 31.12 14.106.85 14.88 the tectors Ta Deatement equarks: the Noroshib H calaration for Assessment grants for Assessment and the tector of the tector and tector of tector and tector and tector of tector of tector and tector of tector and tector of tector and tector of tector of tector and tector of tector of tector and tector of tector of tector of tector and tector of tector of tector of tector of tector and tector of tector o	2223 31.03.202 7.28 10.777.7 17.28 10.777.7 17.29 10.777.7 1707) under Section th Court of Rajastha Respert opinion of e recommended final expert opinion of e recommended final nail dividend of 1.1.5 Verar 2012-13. the H rear 2012 of the Act at the essary data/document ter/ were declared at 133A of the Act at the essary data/document of 019-20 to Assessm likyto arise out of the stake in Mindful South og in creating synem	Yes F 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for As has quashed hip priorable High Court of talained by the Parent dividend of 21.5% per spor share La, 75% of talained by the Parent dividend of 21.5% per spor share La, 75% of talained by the Parent dividend of 21.5% per spore share La, 75% of talained by the Parent talained by talained talained by the Parent talained by the Parent talained by talained talained by talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained talained tala	inded 31.03.20 41.504.0 sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity shar. Hence, t int Compan g current y quiring furt n an unrela cas (equiva and accour p sourcing.
لالسمية المنابعة منابعة المنابعة المن	त वित्तीय परिणा असाय अस्त प्राय ग गरी इस प्रकार है: मर से पहले) गरी	मों का (१ लाख में त त तिमाही	, जब सक कि अ समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (अंकेहिर) 2,63,659,47 10,105.76 15,917.39 11,101.83 10,830.57 934.77 118.77 2,63,659.47	समापन शिमाही 31 मार्च 2023 (संकेष्टिस्ट) (संकेष्टिस्ट) 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,566.38 9.34.77 22.20 60,810.20	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year granted stay order and a stay of the equity shares of 7 capity shares of 7 shares of 8 November 2021, 5 the Parent Compa party for a stala co- party for a stala capitary share stala capitary shares of 8 party for a stala share of 8 party for a stala share of 8 party for a stala co- bit accorreance with manufacturing abit 12 Duma previous y and restor and preventive 6 https://www.capitary.com/ and restor and preventive 6 https://www.capitary.com/ and preventive 6 https://www.capitary.com/ and restor and preventive 6 https://www.capitary.com/ and preventive 6 https://wwww.capitary.com/ and preventiv	sling appenses Parent Company: recoived notices from t smmt Year: 2015: Elouring the current of 13-140 Assessment 2015: File on technic and the Parent Company in Interim each smatch sector and plantility to arise out of these stores of the Parent Company in Interim each appearship to a sport of 4.50° are share per share have been declared during the check subject to approval of sharehold discussion of the Parent Company in their mer- per share have been declared during the check subject to approval of sharehold discussion of the Parent Company in point my received notes; user 5 section 4.2° data, based on the the section of the sharehold discussion of the theory of the theory of the same company in the theory of the sharehold in the AI 103 – "Bisses Combination"; the smat diso strengthen the digital busines are three was a cyber-that com some of the hey stores. The Company theory of the systems, All critical operational syst effects were put in lights. The Company theory and the size of the systems. The company theory and the size of the systems. The company theory and the size of the systems. All critical operational syst effects were put in lights. The Size of theory and the size of the systems. All critical operational systems and the size of the systems. The company theory and the size of the systems. The critical operational systems and the size of the systems. The company theory and the size of theory and theory and the size of the systems. The company theory and the size of the systems. The company theory and the size of theory and theory and theory and theory and theory and the size of theory and theory and theory and theory and the size of theory and the size of theory and theory and theory and theory and theory and theory an	31.0.22224 31:12 14.106.85 14.38 the Income Tax Department 14.106.85 14.38 the Income Tax Department 14.106.85 14.38 15.70 Assessment 10.70 Assessmen	2023 3108.2002 77.28 10.777.7 "ITD" under Section" IPTD - under Section" IPTD - under Section IPTD - unde	Yes F 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for As has quashed the pr norrable High Court of has quashed the pr norrable High Court of has quashed the Parent dividend of ₹ 1.5/- pr pr stanse to the Parent dividend of ₹ 1.5/- pr pr stanses of the Parent dividend of ₹ 1.5/- pr pr stanses of the Parent dividend of ₹ 1.5/- pr president and the Parent dividend of ₹ 1.5/- pr dividend of	inded 31,03,20 41,504,0 sessment Y roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity shar. Hence, t nt Company g current y g current y g current y g current y g current y took stap stricted acco o ascertain
لالسمية: किंग्रे क्वर्सन: हितेव रख, मंद हिंग्सट आफ्रांस्ट्रा हींग्स: Iumoschere@lu 31 मार्च, 2024 के समेकित अंक्रेडिरिटा विवरण परियालन से कुल राजस्व कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से युद्ध लाभ (असमारण मद से पहले) कर पूर्व वामान्य गतिविधियों से युद्ध लाभ कुल व्यापक आग हबिक्टी शेयर पूजी मूल एवं तरल (रूपये में) मूल र्यं तरल (रूपये में) मूल र्यं तरल (रूपये में) मूल र्यं तरल (रूपये में)	त वित्तीय परिणा अग (सं) (सं) (सं) (सं) (सं) (सं) (सं) (सं)	मों केंद्रा (१ लाख में (१ लाख में त तिमाही 1 गंद 2024 केंद्रित) में/4.268.79 2,999.33 3.8.58 2,999.33 934.77 38.58 14,268.79 2,946.99 2,946.99 1,629.90	. जब एक कि ज सामार वर्ष 31 मार्ग व्यर्थ 31 मार्ग 2021 (जंकेशिरा) 2,63,659.47 15,977.39 11,101.83 10,830.57 934.77 118.77 2,63,659.47 12,608.50 12,608.50 8,401.57	समाप्त सिमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेरेश) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2.074.97 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2.278.61 1,792.68 1,308.74	In earlier years, the 2012-13 to Assess Agained stay, order and agained stay, order and agained stay, order against status, interim of against status, interim of advidend of 45.000 10. The Income Tab. Do November 2021.5 the Parent Compa Information. As on 11. During aurona type information. As on 12. During previous y 14.000 to 15.000 15.0000 to 15.0000 16.0000 to 15.0000 17.00000 to 15.0000 19.00000 to 15.0000 19.00000 to 15.0000 19.00000 to 15.0000 19.00000 to 15.0000 19.00000000 19.0000000000 19.0000000000	sling appress Parent Company: received notices from oner Verz 2015 Loning the current 013-14 to Assessment 2015 -16 cen techni- on the Parent Company: Intelmine and on the Parent Company: Intelmine and events, habitot to approval of threshold events, abitot to approval of threshold events, abitot to approval of threshold events, abitot to approval of the threshold events, abitot to approve the threshold events, and the threshold and uning threshold events, abitot to a threshold and uning the events, based upon the harry, threshold and events, abitot to activity and the threshold and events, and the threshold and the threshold and the states company and the threshold and the states and the threshold and the threshold and the states company and the threshold and the threshold and the threshold and the threshold and the threshold and the threshold and the threshold and the the threshold and the threshold and the threshold and the thres	31.08.2224 31:12 14.106.86 14.88 he income Tax Department quartat. the Honorable K 14.88 he income Tax Department quartat. the Honorable K 14.88 to goot the nature and execu- grossedings. The second second second second second to goot the nature and execu- tion and disc of the above the above the proceedings under second second second second second the second second second second second second second the second second second second second second second second the second seco	2222 31,02,2222 2273 228 10,7777,77 2707) under Sector (Dourn of Pagatana mal expert opinion on anal expert opinion of anal expert opinion opinion of anal expert opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion of anal expert opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion op	Yes € 3 31.03.2024 3 50,172.4 148 of the Act for As has quashed the pr norable High Court of has quashed the pr promovable High Court of taking by the Parent dividend of ₹ 1.5/- pe promovable High Court taking the parent premises of the Parent taking the parent promovable taking the parent promovable taking the parent promovable taking the parent promovable taking taking taking promovable taking taking taking promovable taking taking taking taking promovable taking taking taking taking taking promovable taking taking taking taking taking promovable taking taking taking taking taking taking taking taking taking taking taki	inded 31.03.20 41.504.0 sessment 1 roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity set ar. Hence, 1 nt Company g current y quiring furt n an unrela coc (equiva and accour o sourcing). t took step stricted acco o ascertain each. Basis cable legal
لاللالمحمد المراقع مال المراقع مالي محمد موني مسلم المراقع مالي المراقع المراقي المراقع المراقي ال مراقي محمد مالي المراقي ا	त वित्तीय परिणा समाप ११ म (अंधं गार) गरी इस प्रकार है: ग सह से पहले) गर) सहायक कंपनी (एक साथ "स	मो कठा (१ लाख मे त (१ लाख मे ग गरिंगारी 1 १४,२६८,२७ 2,999,33 5,217,51 3,606,69 3,298,92 934,77 38,58 934,77 38,58 934,77 38,58 1,629,90 1,629,90 1,629,90 मुंह: 'क तीर प 1,629,90	. जब तक कि अ सामाद वर्ष 31 मार्थ द्वय्य (खकेशित) 2,63,659,47 16,105,76 15,917,39 11,06,133 10,830,57 934,77 118,77 2,63,659,47 12,608,50 12,269,50 8,401,57 र सरविंगि) और स	समापा शिमाही 31 पार्म 2023 (संबेहेस्ट) (संबेहेस्ट) 2,352,01 2,352,01 3,328,88 2,074,97 2,506,38 934,77 22,20 60,810,20 2,278,61 1,792,68 1,308,74 स्वी/10 के जपर्युक्त	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year or analysis of the the assessment Year or analysis of the the equity shares of t capity shares of t the Parent Compa party for a total co EURO 1154 lass the manufacturing ability of the parent Compa of the	sling appenses Parent Company: received notices from 1 smm1 Vers 2015 E. During the current on the 2rent Company in termine many and the 2rent Company in termine may be added to the second of the second part of the 2rent Company in their means per share have been declared during the companies of the 2rent Company in their means per share have been declared during the companies of the 2rent Company in partice may need the second of the second part of the 2rent Company in their means per share have been declared during the companies of the 2rent Company is port my received notices under Second 124 date, based upon the failure, the managers is clear to the second of the during the the sideration of the 10.460 De tost grounders their and a start of the during the the means of the second of the during the the means of the during the the second of the during the the second as strengthen the during the the case of possible data breach. Basis the pre- down be and from the independent societors of the second from the independent societors of the second of the se	31.03.2224 31.12 31.03.2224 31.22 14.106.86 14.38 the Income Tax Department tay parts, the Horiorate Mey Tay tay and the Horiorate Mey Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay the Tay tay tay tay the Tay the Tay tay tay tay tay tay tay the Tay tay tay tay tay tay tay tay tay the Tay tay tay tay tay tay tay tay tay the Tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay the Tay t	2222 31,02,2222 2273 228 10,7777,77 2707) under Sector (Dourn of Pagatana mal expert opinion on anal expert opinion of anal expert opinion opinion of anal expert opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion of anal expert opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion opinion op	Year E 3 30.30.2024 3 50,172.4 148 of the Act for Ass has quashed the prinorable High Court of the Act goal and the prinorable High Court of the Act goal and the prinorable High Court of the Act goal and the prinorable High Court of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of the Act goal of	inded 31,03,20 41,504.1 roceedings Rajasthan Company, er fully paid on equity shar. Hence, t nt Company guirrent y ar, Hence, t nt Company guirrent y ar, Hence, t nt Company guirrent y guirrent y science to and accour- o ascertain each, Basis cable legal . The busin
لالمحمد المحمد	त वित्तीय परिणा समाप ३१ म १ म १ म १ म मद से पढते) मद से पढते) मद से पढते) मद से पढते) मद से पढते) मत्मि (एक साथ 'स समीध कर सी है जीर निदेश	मो कठा (१. लाख मे त तिमाही त त तिमाही गं गं 2024 २,999,33 5,217.51 3,606,69 3,298,92 934.77 38.58 4,4268.79 2,946,99 2,946,99 1,629,90 1,629,90 मुद्द के तीर प मंडर ती पई म, 2015 के सा 3,61 र प	. जब एक कि व सामाद वर्ष 31 मार्च 2024 (बारेहीरा) 2,63,658,47 10,105.76 15,917.39 11,018.83 10,830.57 934.77 2,63,659.47 12,609.50 8,401.57 र संदर्भित) और स स, 2024 को आमंगि	समाय [तेगाही 31 मार्च 2023 (संकेष्ठिस्त) (संकेष्ठिस्त) 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 हर्स्रा के उपर्युक्त अंक अपनी बेडक में [वींपर किंक पर्युक्त वेंसर किंक में हैं	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year or analysis of the the assessment Year or analysis of the the equity shares of t capity shares of t the Parent Compa party for a total co EURO 1154 lass the manufacturing ability of the parent Compa of the	sling appenses Parent Company: recoived notices from t smmt Verz 2015 E. During the current on the Verz 100 E. During the Current of the Verz 100 E. During the Current verz 100 E. Status 100 E. Status 100 E. Status 100 e. Status 100 E. Status	31.03.2224 31.12 31.03.2224 31.22 31.03.2224 31.22 31.03.22 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31.03.25 31	2022 31.0.3.2022 2023 31.0.3.2022 10.777.7 218 10.777.7 1070 under Section 104 Control Passibility 104 Control Pass	Year E 3 30.30.2024 3 30.30.2024 148 of the Act for Ass has quashed the prinorable High Court of has quashed the prinorable High Court of the Parent dividend of \$1.5/-prinorable High Court of paid during the year premises of the Parent proceedings. big data premises of the Parent dividend of \$1.5/-prinorable dipidend o	inded 31.03.20 41.504.1 Sessment N receitings Rajasthan Company, rr fully paid Rajasthan Company, rr fully paid rully paid rul
لالسمية المحمد	त वित्तीय परिणा समाप अग अग अग अग त न न न न न न न न न न न न न	मों के (१ लाख मे (१ लाख मे त किमाछी त गर्य 2024 अंकेशित) 14,268.79 2,999.33 5,217.51 3,606.69 3,268.92 934.77 38.58 2,946.99 1,629.90 1,629.90 मुद्ध के तीर प मंडल ने मई मूह" के तीर प मंडक ले मई मूह" के तीर प मंडक ले मई मूह के दीर प मंडक ले मई	. जब तक कि ज सामार वर्ष 31 मार्ग 2024 (जकेविरा) 2,63,658,47 10,105,76 15,977,39 11,010,83 10,830,57 934,77 2,63,659,47 12,600,50 12,600,50 8,401,57 र संदर्भित) और ज स प्रति कंपनीय और स्व	समाय [तेगाही 31 मार्च 2023 (संकेष्ठिस्त) (संकेष्ठिस्त) 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 हर्स्या के उपर्युक्त अस अपनी बेडक में [धीनियम, 2015 की तियर इक	In endire years, the 2012-13 to Assessment Year or analed stay order or analed stay order or analed stay order or analytic the Board of Direc order the Board of Direc order the Board of Direc order the Board of Direc the Board of Direc the Porent Compa party for a total co EURO 11:54 lacs in accordance with manufacturing ability order the and previous y retrive and restored to gal opinion other operations of the G 13 Exceptional items of 14 During party for a total co EURO 11:54 lacs order and preventive ch lag opinion other operations of the G 13 Exceptional items of 14 Exceptional items of 15 Exceptional items of 15 Exceptional items of 16 Constant Constant Constant Constant Constant 17 During party of the Constant Constant of the Constant Constant Constant 18 Exceptional items of 19 Constant Constant Constant Constant 19 Constant Constant Constant 19 Constant Constant Constant Constant 10 Constant Constant Constant 10 Constant Constant 10 Constant Constant 10 Constant 10 Constant Constant 10 Constant Constant 11 Constant Constant 12 Constant Constant 13 Exceptional items of 14 Constant Constant 15 Constant Constant 16 Constant Constant 17 Constant Constant 18 Constant 18 Constant 19 Constant 19 Constant 19 Constant 19 Constant 10 Const	sting appenses Parent Company: received notices from 1 smmt Year: 2015 E. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 to Interhin on the Parent Company: Inteline mass not expect Company: Inteline mass per share have been declared during the 2+ each, subject to apprival of sharehold (disch aggregating to 45.0°) er sharehold (disch aggregating to 45.0°) er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 2017 Oroinduted a Suver y basquetty, the Parent Company is pori my network ontoises under Secton 142 data. based upon the naturs, the managen 5.0% TaU Limit A.U. (wholly owned at 2.8 September 2023. The fair value is at the vise a cyber-attack on some of the spetiens. Af chair current discussion from the independent sciences of the remits, faises they near the collowing for impairment exp Particulars try, plant and equipment ti, in Progress)	31.03.2224 31.12 31.03.2224 31.12 14.106.66 14.38 the income Tax Department quarter, the Honorate Housessmen grounds: FIV Assessmen proceeding under Status 10.12 16.10.10 10.0000 Fit FIV Assessmen proceeding under Status 10.12 17.10 10.0000 Fit FIV Assessmen proceeding under Status 10.12 17.10 10.0000 Fit FIV Assessment fit 10.12 10.12 17.10 10.0000 Fit FIV Assessment fit 10.12 10.12 10.12 18.00000 Fit 10.0000 Fit FIV Assessment fit 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.1	2022 31,03,202 2027 31,03,202 2017 10,07,77 1100 inter 5 Section 1100 inter 6 Section 1110 inter 6 Section 1111 inter 6 Section	Year F 3 310.3.2024 3 30.0.2024 3 30.0.2024 148 of the Act for Ass normable High Court of tained by the Parent dividend of 14 15/-pe per share i.e., 75% of d paid during the year premises of the Paren trained by a proceedings. premises of the Parent during the year premises of the Parent premises of the Parent proceedings. BV, Metherlands from proceedings. BV, Metherlands from drawing of the deep is through the deep ompliance with apple out of this incident. (¢ in lace, unless. Verset 5 3 3103.2024 649.21	inded 31.03.20 41.504.1 Sessment N recealings Rajasthan Company, re fully paid Company, re fully paid Company, re fully paid paid recealing a recealing a recea
LUMAXX dit. डावंस्वा: हिर्दिय वह मेल स्वर्मेंट आजाउनमान्द्रीय वह मेल सम्बित् द्राव्या अप्रियालय सम्बितिय अप्रियालय सम्बितिय अप्रिये के सुद्ध लाभ स्वर्म विकेस विद्ये युद्ध लाभ स्वर्म विविधों से सुद्ध लाभ स्वर्म व्यापक आय हुत आजव के तिए युद्ध लाभ सुद्ध आयी के लिए युद्ध लाभ (असाधारण मद के या स्वर्म के स्वर्ग पुकी प्रतिविधा परिणाम के सुद्ध जानका परिष्यणियाँ : . व्यापक ताय हिष्यणीयाँ : . व्यापकित हिसीय परिणाम याक संसोधित कर्पनिति कि जुनुवारेग निक्रियेव परिणामों के लेवा परीषा ताकिनि भे जुनुवारेग निक्रियेव परिणाम याक संसोधित कर्पनिति कि प्राप्त 13क कि राहत याव आयीस्विमि भारणेत ये वेखाल प्रतन्त सित्येव स्वरिमान याक्र संसोधित कर्पनिति कि . वाक्र के स्वाय या कीरियो परिणाम याक्र संसोधित कर्पनिति कि . वाक्र कर्म माय बाढीक के सिए व्राप्त साम्र क्रायित क्रिया के त्राप्त सामक साम्र सामित में हिस्त प्राप्त साम्र क्र क्राया के लिया के स्वर्ग प्राप्त के सुद्ध प्राप्त 38 स्वर साम्र कीर्म प्राप्त कर्म के सुद्ध सामिति में . वाक्र कितीय परिणाम याक्र संसोधित करने का स्वरियि कि . वाक्र क्रिये साम्र क्र कर्म में स्वर्ग साम्र के सित्य सित्त कर्म में स्वर्ग साम्र कर्म में स्वर्ग साम्र कर्म में सिद्य स्वर का स्वर्ग के सुद्ध साम्र कर्म में सित्य सित्त कर्म में सित्य सित्त कर्म से स्वर्ग साम्र कर्म में सित्य सित्त कर्म से स्वर्ड साम्र कर्म सित्य सित्र कर्म से स्वर्ड साम्र कर्म से सित्य सित्त कर्म से स्वर्ग साम्र कर्म से स्वर्ड साम्र कर्म से सित्र साम्र कर्म से स्वर्ड साम्र कर्म से सित्य सार कर्म से सित्र साम्र कर्म से सित्र साम्र कर्म से सित्र साम्ल कर्म से सित्र साम्र कर्म सित्र साम्र कर्म से सित्र साम्र कर्म साम्र कर्म से सित्र साम्ल कर्	त वित्तीय परिणा असमाय असमाय असमाय असमाय (अं (अं पाए) गरी इस प्रकार है: न्या सहायक कंपनी (एक साथ 'सस सहायक कंपनी (एक साथ 'सस क्षाय कंपनी (एक साथ 'सस स्वाय कंपनी (एक साथ 'सस स्वाय कंपनी (एक साथ 'सस स्वाय कंपनी (एक साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी कंपनी 'सम क्षाय कंपनी कंपनी 'सम क्षाय कंपनी (एक साथ 'सस क्षाय कंपनी (क साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी (क साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'साथ 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस' 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय कंपनी 'सस क्षाय कंपनी कंपनी 'सस क्षाय 'सम कंपनी कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सस क्षाय 'सम क्षाय कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी 'सम क्षाय कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी 'सम कंपनी 'स	मों की दिया कि	. जब तक कि ज सामाद वर्ब 31 मार्च 2024 (जकेंशित) 2,63,658-47 10,105.76 15,977.39 11,001.83 10,830.57 98.477 118.77 2,63,659.47 12,608.50 8,401.57 4 संवर्गित) और स स, 2024 की आयों देस् त्रों के आयों	समाप्त तिगाही 31 मार्ग 2023 (अंथेरिश) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2.074.97 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2.278.61 1,792.68 1,308.74 80.847 1,792.68 1,308.74 80.847 1,308.74 81/87 80.847 1,308.74 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87 81/87	In endire years, the Survey of the second second second second Seasessment Year (granted stay order granted stay order granted stay order granted stay order granted second second second second granted second second second second November 2021; State Berent Company Horement Tack Second Second Second Difference Second Second Second Second State Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second	sting appenses Parent Company: received notices from 1 smmt Year: 2015 E. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 to Interhin on the Parent Company: Inteline mass not expect Company: Inteline mass per share have been declared during the 2+ each, subject to apprival of sharehold (disch aggregating to 45.0°) er sharehold (disch aggregating to 45.0°) er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 45.0° er sharehold disch aggregating to 2017 Oroinduted a Suver y basquetty, the Parent Company is pori my network ontoises under Secton 142 data. based upon the naturs, the managen 5.0% TaU Limit A.U. (wholly owned at 2.8 September 2023. The fair value is at the vise a cyber-attack on some of the spetiens. Af chair current discussion from the independent sciences of the remits, faises they near the collowing for impairment exp Particulars try, plant and equipment ti, in Progress)	31.8.2224 31.9.2224 31.9.2224 11.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.88 14.106.85 14.88 14.89 14.106.85 14.88 14.89 14.106.85 14.88 14.89 15.107 15.48 14.89 16.108 14.99 14.99 17.101 16.48 14.99 18.101 16.99 11.89 18.101 16.99 11.89 19.101 16.79 14.99 19.101 16.79 14.99 19.101 16.79 14.99 19.101 16.79 14.99 19.101 16.79 14.99 19.102 <	2022 31,0,2,222 2027.77 21,0,2,222 2027.77 21,0,2,222 2027.73 10,0,272 2027.73 10,0,272 2021.73 10,0,172 2021.73 10,0,172 2022.73 10,0,172 2023.74 10,0,172 2023.75 10,0,172 2023.75 10,0,172 2023.75 10,0,122 2024.75 10,0,122 2025.75 10,0,122 2024.75 10,0,122 2025.75 10,0,122 2026.75 10,0,122 2027.75 10,0,122 2028.75 10,0,122 2029.75 10,0,122 2029.75 10,0,122 2020.75 10,0,122 2022.75 10,0,222 2023.71 10,0,222	Year E 3 31.03.2024 3 30.02.024 148 of the Act for Ass has quashed the prinorable High Court of has quashed the Parent dividend of \$1.5% or dip and during the year of dip and during the year premises of the Parent Parent and a \$2.5% of dip and during the year of dip and during the year premises of the Parent expression \$1,25% or dip and during the year proceedings. BV, Netherlands from proceedings. BV, Netherlands from orginance with applic count of this incident. (4 in las, unless Veer E Year E 3 33,03.2024	inded 31.03.20 41.504.1 Sessment N recealings Rajasthan Company, re fully paid Company, re fully paid Company, re fully paid paid recealing a recealing a recea
LUMAXX dit. व्यवंत्वय: हितिय वह मेल विवरण: हितिय वह मेल विवरण: हितिय वह मेल विवरण विवर ववर ववर ववर	त वित्तीय परिणा असमाय असमाय असमाय असमाय त्र त त त त त त त त त त त त त	मों की दिया कि लिंदी कि लि लिंदी कि लि लि लि लि लिंदी कि लिंदी कि लिंदी कि लिंदी कि लिंदी कि लिंदी	. जब एक कि ज सामार वर्ष आ गांत वर् (जकेंशिरा) 2,63,569-47 10,105.76 15,977.39 11,60.83 10,830.57 934.77 2,63,659.47 12,608.50 8,401.57 2,468,559.47 12,608.50 8,401.57 2,468,559.47 12,608.50 8,401.57 2,414,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,	समाप्त सिमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेस्0) 66,810.20 2,352.01 3,328.88 2.074.97 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 हमीमी के उपार्नुकत केल अपनी स्टेज की तैसार किये गये हैं। य वित्तरमा है। य र एक 35.00 / –	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year Granded stay order arranded stay order arranded stay order arganized stay or arganized arganized stay or arga	sting appenses Parent Company: received notices from t smmt Vera: 2015 E. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 cm techni- on the Parent Company: nettion: Bass not expect any lability to arise out of these stores of the Parent Company in their mere etable agrication to 4 5.0° or entition of the Parent Company in their mere per state have been declared during the capacity and the tables. The tables of the tables of the parent Company in their mere per state have been declared during the capacity and the tables. The tables of the statement of the tables, the tables, the tables tables agrication to the tables. The tables tables agrication to the tables, the tables tables agrication to the tables, the tables tables agrication to the tables. The tables tables agrication to the tables, the tables tables agrication to the tables of the statement of the tables. The tables tables the tables tables tables tables the tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables tables ta	31.8.2224 31.9.2224 31.9.2224 31.9.2224 31.9.2224 31.9.2 14.106.86 14.38 14.38 14.38 14.38 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 14.32 34.32 34.32 34.32 3	2022 31,03,202 210,77,77 21 10,777,77 21 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,28 10,00,202 7,38 10,00,202 7,38 10,00,202 7,38 10,00,202 7,38 10,00,202 7,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,38 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 10,00,202 <td>Year E 3 30.30.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ass has quashed the primorable high Court of the Act for Ass has quashed the primorable high Court of the Parent dividend of \$1.5/p or primorable high Court of the Parent dividend of \$1.5/p or primorable high Court of \$1.5/p or primorable provisionally or primorable provisionally or primorable provisionally or primorable court of this incident. (C in lace, tables) \$2.3.0.3.0024 \$1.9, 2.1 (C in lace, tables) \$2.0.15 \$1.0.3.0024</td> <td>inded 31.03.20 41.504.4 41.504.4 41.504.4 company. r fully paid r fully fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully p</td>	Year E 3 30.30.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ass has quashed the primorable high Court of the Act for Ass has quashed the primorable high Court of the Parent dividend of \$1.5/p or primorable high Court of the Parent dividend of \$1.5/p or primorable high Court of \$1.5/p or primorable provisionally or primorable provisionally or primorable provisionally or primorable court of this incident. (C in lace, tables) \$2.3.0.3.0024 \$1.9, 2.1 (C in lace, tables) \$2.0.15 \$1.0.3.0024	inded 31.03.20 41.504.4 41.504.4 41.504.4 company. r fully paid r fully fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully paid r fully p
LUMAXX dit. डावेला : हिलेव रह. मेल	त वित्तीय परिणा असमाय असमाय असमाय असमाय त्रि प्राय प्राय स्वायक कंपनी (एक साव ''सा स्वायक कंपनी (एक साव '' स्वायक कंपनी (रक साव '' स्वायक कंपनी '' स्वायक स्वायक '' स्वायक स्वायक '' स्वायक कंपने '' स्वायक स्वायक कंपनी '' स्वायक स्वायक कंपनी '' स्वायक स्वायक '' स्वायक स्वायक ''	मों के (१ लाख मे त किमाडी त गर्व उठे त गर्व उ त गर्व उठे त गर्व उ त गर्व उ त गर्व उ त गर्व उ त	. जब तक कि ज सामार वर्ष 31 मार्थ 2024 (जकेविरा) 2,63,5659.47 11,60.83 10,105.76 15,977.39 11,60.83 10,830.57 9,847.7 2,63,659.47 12,608.50 8,401.57 2,468,659.47 12,608.50 8,401.57 2,468,659.47 12,608.50 8,401.57 2,416.83 8,401.57	समाप्त सिमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेस्0) 66,810.20 2,352.01 3,328.88 2.074.97 2,506.38 934.77 2,506.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 803.020 2,278.61 1,792.68 1,308.74 803.020 2,278.61 1,792.68 1,308.74 803.020 2,878.61 1,792.68 1,308.74 81 किंपरा जाना है यर ६० 35.00 /- rseindia.com) एथं	In endire years, the 2012 13 to Assessment Year Granded stay order arranded	sting appenses Prevent Company: recoived notices from t sent Year: 2015 - Louring the current O13-14 to Assessment 2015 - I for Internation on the Parent Company: nettion less on the parent Company in their mean of the mean of the mean of the parent Company of their comparent their the through a company in the them of the parent of the parent change is control of the parent change is the toron of them of the parent change is the toron of them of the parent change is the toron of them of the parent change is the toron of them of the progress of the toron of the of the parent change is the toron of the of the parent change is the toron of them of the progress of the toron of them of the progress of the toron of the of the of the toron of them of the progress of the toro	31.82224 31.92 31.82224 31.92 14.106.86 14.38 14.106.86 14.38 14.106.86 14.38 14.106.86 14.38 14.106.86 14.38 16.100.101 14.30 16.101 14.30 16.101 14.30 16.101 14.30 16.101 14.30 17.101 16.31 18.101 16.31 19.101 16.31 19.101 16.31 19.101 16.31 19.101 16.31 19.101 16.31 19.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.101 16.31 10.102	2022 31,0,3,202,202 2027.7.7 10,777.7 "TTO") under Sector (D'Ouri of Registria mid Aryent option on mal expert option on the expert option of the expert option option of the expert option option option option option option the expert option option option option option option the experiment option option option option option option the experiment option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option option optio	Year E 3 31.03.2024 3 30.02.024 3 50,172.4 148 of the Act for Ass has quashed the prinorable High Court of nonrable High Court of or pershare 1.a., 75% or pershare 1.a., 75% or pershare 1.a., 75% or pershare 2.a., 75% promocedings. promocedings. BY. Netherlands from personalization of 2.1.048.90 is errough the deep is through the deep is through the deep is through the deep is direction of 2.1.048.90 is Group. Management nafart precision of 2.1.048.90 is If is als.unless of this incident. (f in lass, unless) 16.6.34 806.15 teld figures in respect 1.6.6.44 806.15	inded 31.03.20 41.504.4 41.504.4 sessment / Rajasthan Company, rajasthan Company, rajasthan Company, rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan rajasthan
(अग्रेल विषेध के विषय के किये का के का कि का का का का कि का का कि का कि का का का का का का कि का का का का कि का	त वित्तीय परिणा अस्माद्व त वित्तीय परिणा अस्माद्व त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र	मों को (१. बाल्ड मे तिशाही तिशाही तिशाही ग्रिंग (२. २०२४) २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २. २४ ३. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २.	. जब एक कि ख सामार वर्थ आ मार्थ वर्थ (अंकेशिरा) 2,63,659,47 10,105,76 15,917,39 11,035,76 934,77 934,77 934,77 2,63,659,47 118,77 2,63,659,47 12,608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,2608,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 4,508,50 8,401,57 5,508,50 8,401,57 5,508,50 8,401,57 5,508,50 8,401,57 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,50 5,508,508,50 5,508,508,508,50 5,508,508,508,508,508,508,508,508,508,50	समाप्त (तेमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेरेश) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,556.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 1,792.68 1,308.74 हयोगी के उपर्युक्त जिस किय गये हैं। य विकरम और हैं। य विकरम और है। व विकरम और है। व विकरम और हा स्विरमा जाना है। यर एक 35.500 /~ nseindia.com) एवं सीवित जांकजों और	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year granted stay order granted stay or	sting appenses Parent Company: recoived notices from t smmt Year 2015 E. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 cm technic and the Parent Company: nettion assess not expect any lability to arise out of these stores of the Parent Company in their mere 24 carb, subject to apprval of sharehold divides aggregating to 0 < 4.30° er share per share have been declared during the capacity of the Parent Company in their mere per share have been declared during the capacity of the Parent Company in partice per sharehold to the share. If the share the divides aggregating to your divide the share the divide saggregating to your divide the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the share the sha	31.82224 31.12 31.82224 31.12 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.16 14.38 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.107 14.107 11.106	2822 31,0,3,282 2823 110,777,7 27,28 110,777,7 27,28 110,777,7 27,28 110,777,7 27,29 110,777,7 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 21,20,274,7 31,40,282 22,20,274,7 31,40,	Year E 3 30.30.2024 3 30.30.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 140 of the Act for Ask 150 of the Act for Ask 150 of the Act for Ask 160 of the Act for Ask 160 of the Act for Ask 150 of this incident 150 of this incident 160 of the Act for Ask 160 of this	Inded 31.03.20 31.03.20 31.03.20 sessment 1, 15.04.0 sessment 1, 20.00 Rajasthan Company, er fully paid or equity statue in ending the sessment 1, 10.00 in equity statue in an unrelab
(अग्रेला के दिवेद पर किये का के का का के का	त वित्तीय परिणा अस्माद्व त वित्तीय परिणा अस्माद्व त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र	मों को (१. बाल्ड मे तिशाही तिशाही तिशाही ग्रिंग (२. २०२४) २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २. २४ ३. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २.	. जब तक कि ज सामार वर्ष 31 मार्थ 2024 (जकेविरा) 2,63,658,47 10,105,76 15,917,39 11,001,83 10,830,57 934,77 934,77 2,63,659,47 12,600,50 12,600,50 8,401,57 र संदर्भित) और स स, 2024 को आयों यहांतों के अनुष्य 10 स्वर्गित) और स स, 4, 2024 को आयों तेंद व्यापर के तहत तक प्रकटन प्रेतित	समाप्त (तेमाही 31 मार्ग 2023 (अंथे हेरेश) 60,810.20 2,352.01 3,328.88 2,074.97 2,556.38 934.77 22.20 60,810.20 2,278.61 1,792.68 1,308.74 1,792.68 1,308.74 हयोगी के उपर्युक्त जिस किय गये हैं। य विकरम और हैं। य विकरम और है। व विकरम और है। व विकरम और हा स्विरमा जाना है। यर एक 35.500 /~ nseindia.com) एवं सीवित जांकजों और	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year granted stay order granted stay or	sling appress Parent Company: received notices from t mont Year 2015 - Louring the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the current of 13-14 to Assessment 2015 - 16 controp the persister the between 4 controp the partment ("We TD") conducted a Survey theorem, received notices under Section 142 data, based upon the anary, the manages or my review notices under Section 142 data, based upon the anary, the manages data, based upon the anary, the manages data, based upon the anary, the manages or my received notices under Section 142 data, based upon the anary, the manages or my received notices. The Group have a 2.5 Beptimber 2023. The fair value o in the 34 TB - "Bases Controp and". The and also strengthere the digital busine are, from the independent solicitors of th persits. Group management believes built roup are continuing in the inoma namere sonsist of the following or impairment exp Particulars	31.82224 31.12 31.82224 31.12 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.16 14.38 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.107 14.107 11.106	2222 31,0,2222 210 10,777,7 72.8 10,777,7 10 10,777,7 110 10,022,023 110 20,023 110 20,023 110 20,023 110 20,023 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 10,024 110 10,024 110 20,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,0	Year E 3 30.30.2024 3 30.30.2024 3 50.172.4 148 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 149 of the Act for Ask 140 of the Act for Ask 150 of the Act for Ask 150 of the Act for Ask 160 of the Act for Ask 160 of the Act for Ask 150 of this incident 150 of this incident 160 of the Act for Ask 160 of this	Inded 31.03.20 31.03.20 31.03.20 Sessment / Rajasthan er fully paid on equity spi company, er fully paid er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er ful
لالمحمدة المحمدة المحمة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المح	त वित्तीय परिणा अस्माद्व त वित्तीय परिणा अस्माद्व त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र त्र	मों को (१. बाल्ड मे तिशाही तिशाही तिशाही ग्रिंग (२. २०२४) २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०२४ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४२ ३. २०२४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४४ २२ २. २०४४ २२ ३. २०४४ २२ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २०४२ २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २४ ३. २. २. २. २४ ३. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २. २.	. जब तक कि ज सामान वर्ब आ मार्ग वर्ब आ मार्ग वर्ध (जंकेविरा) 10,105.76 15,917.39 11,00.83 10,835.97 934.77 934.77 2,63,659.47 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 42,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 8,401.57 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.50 12,608.508.50 12,608.508.508.50 12,608.508.508.50	समापत तिमाही 31 मार्गे 2023 (संबेधेंस्प) (संबेधेंस्प) 3.328.88 2.074.97 2.556.38 934.77 2.220 60.810.20 2.278.61 1.792.68 1.308.74 संसार किये मने हैं। 1.792.68 1.308.74 संसार किये मने हैं। य विवरमा जीर इंड आती हैं, तबनुसार ती किया जाना है। यर एक 35.00 / nseindia.com) एवं रीप्रित आंक-जें और	In entire years, the 2012 13 to Assessment Year granted stay order granted stay or	sting appenses Parent Company: recoived notices from t smmt Year 2015 E. During the current 013-14 to Assessment 2015-16 cm technic and the Parent Company: nettion assess not expect any lability to arise out of these stores of the Parent Company in their mere 24 carb, subject to apprval of sharehold divides aggregating to 0 < 4.50° or sharehold divides aggregating to 0.50° or divides aggregating to the divide to 0.50° or divides aggregating to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to the divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to 0.50° or divide to 0.50° or divides to 0.50° or divides to 0.50° or divide to 0.50° or divides to 0.	31.82224 31.12 31.82224 31.12 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.86 14.38 11.106.16 14.38 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.106 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.106.17 14.107 11.107 14.107 11.106	2222 31,0,2222 210 10,777,7 72.8 10,777,7 10 10,777,7 110 10,022,023 110 20,023 110 20,023 110 20,023 110 20,023 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 20,024 110 10,024 110 10,024 110 20,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,024 110 10,0	Year E 3 31.03.2024 3 30.02.024 148 of the Act for Ass has quashed the prinorable High Court of the Parent dividend financial result dis of the SEB (Listh <td>Inded 31.03.20 31.03.20 31.03.20 Sessment / Rajasthan er fully paid on equity spi company, er fully paid er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er ful</td>	Inded 31.03.20 31.03.20 31.03.20 Sessment / Rajasthan er fully paid on equity spi company, er fully paid er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er full finance spi er full finance finance spi er ful

....

....

www.readwhere.com

....

नई दिल्ली

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, MAY 25, 2024

	~																			
1st Floor, SH-12, G Greater Noida – 2013	SASTRA amma SI 306 (U.P	Centre N topping C	oida, Centre, G cs8290(n <mark>otio no</mark> name you ca Gamma 1 @pnb.co	n BANK upent			OMANSH ENTER Regd. Off: 8-507, 5th Floor, State New Delhi CiR: Col1000L1 Email (D: omanshwork@pma stract of Audited Financial Result 378t Marc 378t Marc	sman Hou - 110001 1974PLC24	ise, Barakh 11646 1: +91-8828	amba Ro			Registered Office: S-	(Formerly known a (Formerly known a CIN: I 9-A, 2nd Floor, Sagar Ra ice: Third Floor, F-2264.	s Devki Leasir .74110RJ1993 atna, Gopalpur	ng and Finand PLC085542 a Bypass Roa	e Limited) d, Shri Go	pal Nagar, .	Jaipur - 3020
(For Whereas the undersigned being	Immovat	ile Proper	ty)	luniah Nat	ional Bank		SI.		3 month	Corresp	ondina	12 months			jaipur@gmail.com, Web					
under the Securitization and Rec	onstruction	n of Financ	cial Assets	s and Enfi	proement of		No.	Particulars	ender 31.03.20	d end	ded	ended 1.03.2024			ited Financial Result					arch 31, 20
Security Interest Act, 2002 and in e: Rule 3 of the Security Interest (Enf	orcement)	Rules, 200	2, issued a	a demand i	notice dated			Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period	1.	02	0.00	1.02		PARTICULARS		1	Quarter ende	d	Year end	(Rs. in Lak ed Year end
05.02.2024 calling upon the Borro amount mentioned in the notice b	ieing Rs. 4	13,10,831.4	40/- (Rs F	orty Thre	e Lakh Ten			(before tax and Exceptional items)	(21.4	44) (1	8.20)	(32.72)				31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)		
Thousand Eight Hundred Thirty interest & expenses within 60 days	from the da	ite of notice	s/date of re	eceipt of the	said notice.			Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)		44) (42	26.20)	(32.72)		Total income from operat		183.47	214.76	266.80	754.04	517.9
The borrower having failed to repay the public in general that the under	signed has	taken poss	session of	the proper	ty described			Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(21.4	44) (42	26.20)	(32.72)		Net Profit / (Loss) for the (before tax, exceptional a	period nd/or extraordinary items)	1.11	1.16	-5.60	9.72	8.83
erein below in exercise of powers Act read with rule 8 of the Secu								Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for						Net Profit / (Loss) for the		1.11		-5.60		
4th day of May 2024. The borrower in particular and the p	ublic in ae	neral is her	ebv cautio	ned not to a	teal with the			the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(21.4	44) (42	26.20)	(32.72)		(after exceptional and/or Net Profit / (Loss) for the		1.11	1.16	-5.60	9.72	8.83
property and any dealings with Punjab National Bank, (BO Noida	the prope	rty will be Alpha Sect	subject	to the chi ch Code 4	arge of the 47600 for an			Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve	10.	56 35	55.00	10.56		(after Exceptional and/or Total Comprehensive Inco	Extraordinary items)	1.11	1.16	-8.20	9.72	6.26
Rs. 43,10,831.40/- (Rs Forty Three Forty Paisa Only) as on 31.01.202	e Lakh Ten	Thousand	d Eight Hu	indred Thi	rty One and			Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	0:					(Comprising profit/(loss)	for the period (after tax)		harrow t			
The borrower's /guarantor's /mortg 8) of section 13 of the Act in respect	agor's atte	ention is inv	vited to pro	ovisions of	sub-section			1. Basic (Rs.) : 2. Diluted (Rs.) :	(4.0		(2.40)	(6.20)		and other comprehensive Equity Share Capital	income (after tax)	1.11 343.54	1.16 345.18	-8.20 345.18	9.72 343.54	6.26 345.1
Property Situated at Flat No. 206	on of imn	iovable p	roperty				Note	1	1.00			(Reserves (excluding Revi	aluation Reserve) as shown					
GH-07A, Sector Phi 2, Greater Noi	da, U.P., ar	ea Measuri	ing 123.60) Sq. Mtrs.,	in the name		R	he above is an extract of the detailed f esults filed with the Stock Exchange	under Re	gulation 33	of the SE	BI (Listing		in the Audited Balance St Earnings Per Share (of R						
of Shyam Veers/o Mam Chand & Vi Date: 24.05.2024,	miesn w/o	Snyam vee			zed Officer,		R	bligations and Disclosure Requirement esults and this extract were reviewed b	by the Audi	t Committee	and appro	wed by the		(for continuing and disco Basic	ntinued operations)-	0.03	0.03	-0.02	0.28	0.18
Place: Greater Noida			F	Punjab Na	tional Bank		10	oard of Directors of the Company at th rmat of the Statement of Audited Finar SE Limited (www.bseindia.com).	ncial Resul	ts are availab	ble on the	website of		Diluted Note:		0.03	0.03	-0.02	0.28	0.18
Particulars	Quarter Ended (31.03.2024 Audited 3,620.06 2,692.94 935.11 0,00 0,00 935.11 389.33 545.78 545.78 0,00	Preceeding Quarter 101122023 Un-auditee 388.92 252.97 145.95 0.00 0.01 145.95 145.95 145.95 0.00	Quarter Ended (31.03.2023 d Audited 2,383.44 1,961.65 421.78 0.00 0,00 421.78 517.59 (95.80) (95.80)	Ended 3) (31.03.202 Audited 5,161.2 3,023.4 5,161.2 3,023.4 5,161.2 3,023.4 1,537.7 0,0 0,0 1,537.7 389.3 1,148.4 1,148.4 1,148.4	Ended 4) 31,63,2623 4,767,54 5,777,58 9,1,979,56 0,55,62 0,00 9,1,923,84 3,517,59 7,1,406,35 7,1,406,35 7,1,406,35	पंच	Date: Place	24th May, 2024 :: Delhi ब नेशनल बें 	For । त प्रतीक		F Aanaging DIN:	Sd/- Renu Satti Director 07781116	იეის	Date: 24.05.2024 Place: Jaipur national bar e name you can BANK up	2nd Eloor Vil		<mark>A CENTR</mark> , Rajendra	(MAHESI M E: WES Place N	H KUMAR AG anaging Dire (DIN:028061(T DELH ew Delh	ctor ¹⁸⁾ i-110008
Earning per Share Basic	0.46	0.12				E-/	Auctio	on Sale Notice for Sale of					ecuritisa	tion and Reconstruction						
Diuted		0.12 ETS & LIABILI				Notico i	in horok	by given to the public in general and	d in partic	sular to the l	provi	so to Ru	ule 8 (6)	of the Security Interest	(Enforcement) Rules,	2002.	d to the Secured	Craditor that	-	husioal/aumho
Particulars				(Rs. AS AT 11 1 2024	AS AT 31.03.2023	posses	ssion of	which has been taken by Authorise	ed Officer	of the Ban	k/Secure	dCreditor	r, will be sole	don "As is where is basis", "	As is what is basis", and "W	/hatever there is	basis" on the da	te as mention	ed in the table	herein below,
Assets				(Audited) (Audited)	recover	ryons	dues due to the Bank/ Secured Cre	sallor from	i the respec	aive Borro	ower(s) an		DULE OF THE SECUE		as menuoned in tr	ie table below ag	ainst the resp	ecuve properu	es.
Total Non-Current Assets Total Current Assets Total Assets					7 43,352.27 5 1,755.66 2 45,107.93	Lot		NAME OF THE BRANCH			DE	SCRIPTIO	N OF THE IN MORTO	MOVABLE PROPERTIES	Dt. Of Demand Notice u/s 13(2 Outstanding	2) of SARFAESI AC		VE PRICE	DATE / TIME OF	Details of the encumbrance
Equity and liabilities (a) Equity Share Capital				11,905.0	0 11,905.00		Name	NAME OF THE ACCOUNT & Addresses of the Borrower/guar		count	OWN	IER'S NAM		GERS OF PROPERTY(IES)]	Possession Date u/s 13(4) Nature of Possession Symbol	of SARFAESI ACT 2	2002 Depo		E-AUCTION	known to the secured credito
(b) Other Equity Total Equity Total Current Liabilities				33,938.4 45,843.4	4 44,694.98	1. PN	B:MRV	TILAKNAGAR			Second F	loor, witho	ut roof/terrac	e rights, entrance from the back	30.12.2	022	Rs. 1	3.00 Lac	17.06.2024	Not Known
Total Current Liabilities Total Equity and Liabilities				454.2	8 412.95 2 45,107.93	Gua	uarantor)	TRADERS, Borrower : Sh Amit Sa , Smt Sonia Dutta W/o Sh Amit Sain Du	itta (Guaran	ntor), Kh No	16/32-AB	, situated in	the Tilak Nag	s, Out of the built up property no par, New Delhi 110018	Rs. 589.20 Lac + intt 21.04.2		Rs. 1 Rs. 1	5.30 Lac 1.00 Lac	11:00 AM To	
 No investor's complaint was received & M 2. Results were taken on record by Audit C 3. Shares stand Listed at BSE & CSE. 	io complaint p ommittee & E	lending at the loard of Direct	beginning or tors in meeti	r end of Quar ings held on 2	ter / Year. 14.05.2024	Kak	krola, Se	Ground 17, Suraj Vihar, In front Of PNB cotor 13, Dwarka, New Delhi- 110078	6 Grahak Se	eva Kendra,				n Dutta and Sonia Dutta	Physic	al	-		04:00 PM	
 Shares stand Listed at BSE & CSE. Previous Year's J Quarterly figures have Paid-up Capital = 11,90,500 equity share 	been regroup	ed / rearrange = Rs 1 19 07	d, wherever	necessary.		Gar	ambhir	H NEW, TILAK NAGAR			New Delh	i 110027 To	ock F, Lowe ital Plotarea r	r Ground Floor, Rajouri Garden neasuring 265 Sq Yds.	02.07.20 Rs 84.36 Lac + intt. +		Rs.	9.00 Lac 7.90 Lac	17.06.2024 11:00 AM	Not Known
The above is an extract of the the detaile and the second second	d format of C	uarterly/Arrua			filed with stock w.bseindia.com		ambhir Idress- 51	8, Block F, Lower Ground Floor, Rajouri	Garden, Ne	w Delhi	Owner : O	Sambhir			18.09.2 Physic		Rs. 1	.00 Lac	To 04:00 PM	
New Delhi 24.05.2024 Members are requested to kindly Updat	e their Cont	act details, a	Address, PA	FO - DIN: 09 AN, Email, M	790881 obile, etc. for	BRIEF	TERMS	AND CONDITIONS OF E-AUCTION	SALE:	-					riiyad	a				
your company's updates, announceme	nts, results,	reports, con	rrespondenc	ce, etc.		1. The pro 2. The part 3. The sal 4. Bank re 6. For fur	roperties a articulars ale will be reserves t urther deta	subject to the Terms & Conditions prescribe are being sold on "As Is WHERE IS BASI of Secured Assets specified in the Schedul done through e-auction platform provided the rights to cancel / postpone the auction a aits and complete Terms & Conditions of the	IS" and "AS le herein abo at the Websi at any point o e sale, pleas	IS WHAT IS B ove stated to the ite https://www if time. 5. The e refer : www.i	BASIS" and he best of th w.mstcecc e First Bid A ibapi.in, wr	"WHATEVE te information ommerce.co mount of Re ww.tenders.g	ERTHERE IS I on of the Author om on date an serve Price sh gov.in, www.m	BASIS". ized Officer, but the Authorized Office d time of auction specified above. all be accepted only after inclusion of stoecommerce.com, https://eprocure	BID Increse amount as mentioned in a.gov.in/epublish/app.		sion in this proclama	tion.		
								for the properties has been scheduled for 0	06.06.2024	between 11.30	UAM to 1.30	STATU	8. Name of th	e Authonised Officer - Sh. Santosh Ku NOTICE UNDER RULE 8(6) OF	THE SARFAESI ACT, 2002					
						DATE:	25.05	.2024, PLACE: NEW DELHI									AUTHORIZ	ED OFFICE	R, PUNJAB N	IATIONAL BA
-	_	G		Ini	on l	Bank	4							naught Place,			S	ALE	NO	FICE
यूनियन बैंद						of Indi								ter Circle, Con						mmovab
1	क मलका क	रा उपक्रम	A Governme	ent of India un	dertaking.			New Delhi - 1 ⁻	1000	1), Ei	mail	ID -	ubinO	1554723@unio	onbankofindia.	bank		Pr	operties	

The second seco

when	re is , As is what is and whatever there is on the date mentioned below, for recovery of obes as mentioned here	ander to Oriton Bank or india iron the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Resi	erve Price and the C	amest woney Deposite	are also mentioned hereunioe	1 <u>5</u>				
Sr. No.	Name & address of Borrower & Guarantor	Description of the movable / Immovable property put for auction	Constructive or Physical Possession taken	Dues to be recovered from Borrower/ Guarantor (Rs.)	Reserve Price (Rs.) EMD BID Increment Amt.	Date and Time of Auction	Encumbrances known to bank/SA Pending, if any.			
1	Mr. Aug. Knaraf Singh So Mr. Shahrughan Singh, Tairlo No. A 201 Antanisha Green Apartments, Sector-20, Noida, Gautem Budh, Tairlo Kmaraf Singh, Tairlo K. Anay, Kmaraf Singh, Tairlo K. Anay, Kmaraf Singh, Tairlo K. Anay, Kmaraf Singh, Tairlo X. Azid, Antanish Ghenn Apartments, Sector-30, Noida, Gautem Budh Naga-201301, U.P. <u>Also at Mins. Bibha Singh WO Mr. Anup Kumar Singh</u> , Flat No. 461, 6th Floor, Windor Gleens, Piel No. F-28, Sector-50, Noida	Residential filts No-461, 6th Floor, Windsor Greens, Piot No. F-28, Sector-50, Noida Uttar Pradesh-201361, U.P., bounded as under by -East-Open, West-Fait No. 462, North-Open, South -Entry	Symbolic Possession	Rs. 63,76,239.50 as on 31.12,2022 with further interest, expenses and other charges thereon	₹ 1,12,00,000/- ₹ 11,20,000/- ₹ 1,12,000/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	SA No:778/2023 pending for adjudication in DRT Lucknow.			
2	Borower: Ms Shivam Engineering, Through Poppietar-WL-Avath Kalove, Office Shop No5 Naryani Marker Narsda Rand New Simite Narobial Angean: 12001 Unit: 1265 C. Ramuno Industrial Area Bislaudi Rajashan 301019 Correspondence Offices: 2284 Model Town, Rhandsa Roud Gurgaon-122001 Gurandhor: 1. Mr. Samah Sharad Shivatakux, 56128 Lane No.00 Naire Gealt, Ashima, Nof Park, Gurgaon-122001 Also at: H No.278, 4 (Offich S7178) Marker Model Town, 56128 Lane No.00 Naire Gealt, Ashima, Nofe Park, Gurgaon-122001 Also at: H No.278, 4 (Offich S7178) Almos Shivaria Marker Ottaman (S1220) Alasa, El Bony Ko, Sharyani Marker Onanda Road, Mark Simire Hospital Gurgaon-122001 Also at: H No.278, 4 (Olive S7174) Marki, Model Town Gurgaon-122001 Alasa, El Stop Ko, Sharyani Marker Markana Koh, Hare Simiren Hespital Gurgaon-122001	Residential built up Pot Benning No.2784 (Old No.571742), messuring 55: 493 A Yarde eastern portion of polis visuade in 4 Marta Mod Form, Grugono-Ya2011, in the Name of Mar. Bindu Garg Wio Mr.Vmod Kumar, Bounded ac: - North: Property No.277, South: Property No.279, East Rood -24 ft, West Other	Physical Possession	Rs.58,73,953.00 as on 21.12.2021 with further interest, expenses and other charges thereon	₹ 63,84,000/- ₹ 6,38,400/- ₹ 64,000/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	Not known to bank			
3	Borrower, Mis R. S. ENTERPRIESESProprinter Mr. Rav do Cost, Hoose Hoo 34, Sowithan Kung Plampura, Dehi-110034 Garantotti Co: Inite Shihaho Godi, Hoose X. Sa, Swidha Kung Pangmang, Dehi-110034 Mr. Himamshu Goel, Rio 23/124-125, Sector-7, Rohim, New Dehi-110085	 All the part of the Property Consisting of Commercial Shop. No. 203 situated at 2nd Floco. Without conf rightmassring 3.45 & Metris Approx1, 9 and to bittin up free hold property bearing Municipal No. 2664, Ward No. III, Gali Jatwara, Zera Fazi, Naya Bazar, Ward No III, Delhi- 10006. All the part of the Property Consisting of Commercial Shop. No. 204 situated at 2nd Flocor, without conf rightmassuring 3.39 So, Metrisr Approx.) A part of bittin up free hold property bearing Municipal No. 2664, Ward No. III, Gali Jatwara, Zera Fazi, Naya Bazar, Ward No III, Delhi- 10006, Bundaneer of the property activations: On the North. Shop No. 204 situated at 2nd Flocor, 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Stati. 3 (Chem Deputy, West T-Basard) Shop No. 204 Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 205. On the South: Shop No. 203 Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 205. On the South: Shop No. 204 Shop No. 204 Shop No. 205. On the South: Shop No. 204 Shop No. 205 Shop No. 205 Shop No. 204 Shop No. 205 Shop No. 204 Shop No. 205 Shop No	Physical Possession	Rs. 4,02,69,642.05 as of 30.04.2018 with further interest, cost and expenses	₹ 17,42,000/- ₹ 1,74,200/- ₹ 17,500/- ₹ 15,50,000/- ₹ 1,55,000/- ₹ 15,500/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	Not known to bank			
4	Borrower :: Mis 5 GARGENDTERNATIONAL, 241, 242 G. T. Kamal Road, Bakoll, Deihi Proprietori/Guarantor : Mr. Sushii Kumar Garg, BW 55 B. Shalmar Bagh, New Deihi-110088	All the part of the Residential Flat at 157 Floor Admeasuring about 1245 Sq. Ft. situated at BW- 958, Shalimar Bagh owned by Mr. Sushill Kumar Garg Sio Sh Mangoo Ram.	Physical Possession	Rs. 2,79,95,302.98 as on 28.07.2021 with further interest, cost and expenses	₹ 2,08,82,000/- ₹ 20,88,200/- ₹ 2,08,820/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	Not known to bank			
5	Berrower: Mis BMI Enterprises, 6:320, Sector-5, Baswana Industrial Area, Deth- 110339 <u>Also at</u> : 1312, Ground foor, Moi Nagar, New Dehi 1015 Progetein/Guanantors: Mis Gela Areas, Flath 0V-4002, 210 Kingsbarnet, Kundt, Songar-131028 Mic Rajkfumar Andra 1912, Consul Flori Molikagin, New Dehi 1016 Mis Shaata Areas, 1312, Ground Floor, Moli Nagar, Kev Dehi 1015	Flath 0412, Tower-Sapphirei, 8th Floot, having super builtug area 1499 drug fest situated at BDD Sumhtine (CI), Vollage Saldpur, Javan Bypass Road, Bhaving, Tehai Tigara, Ibitt, Alvan, Rajasthan ovened by Utrs, Shashi Arera avol Br, Raj Kumar Arena & Mr, Baj Kumar Arena 6 Ja Lak 1 & Arena Bounded as: O hite North, Agwi Lutth c301 (1996), Ci the South, 44 Mittantho 1 & Bounded as: O hite North, Agwi Lutth c301 (1996), Ci the South, Cal Al Mittantho Bounded as: O hite North, Agwi Lutth c301 (1996), Ci the South, Cal Al Mittantho Loss Bounded as: O hite North, Agwi Lutth c301 (1996), Ci the Work: Open at GP & then boundary wait.	Symbolic Possession	Rs 39,41,165.97 as on 30.09.2021 with further interest, expenses and other charges thereon	₹ 25,00,000/- ₹ 2,50,000/- ₹ 50,000/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	Not known to bank			
6	Borrower Mis, Prashare Electrico, 130. D.B.Gapta Marrier Kami Bagin, Nem Dehi Abaga A-Mi?, Ropo, Nagar, New Dehi Mic, Achtrosh Bagia de Mr. Suhil Kumar Bajai (Proprietor), 130, D.B.Gupta Martat, Karol Bagh, New Dehi, Abaga A-467, Ropo Nagar, New Dehi Mr. Sushil Kumar Bajai olo Late Mr. M.L.Bajai (Guarantor), 467, Ropo Nagar, New Dehi	Immovable property learing Stop No 133, messuing 245 sqf stituted at Desh Bandhu Gupta Market, Karol Bankow Bahl-Holdon Inte name of Ma-Antunoh Bajajo don KS Bajaji, Me sala property is bounded as: EAST:Shop No 153, West Lane, Norh: Shop No 140, South: Shop No 138.	Physical Possession	Rs. 38,54,859.85 as on 10.06.2020 with further interest, expenses and other charges thereon	₹ 66,30,000/- ₹ 6,63,000/- ₹ 66,000/-	26-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	Not known to bank			
7	Borrower, Mis AM Glamond, Through Ils partners Mr. Roshan Lai & Mr. Amit Singla, GI-32, Lawence road, industrial area, New Debi-11002 Partner/Guarantor- LMR. Rosham Lai, H No. 1503, Wardh SS, Rohak, Haryman-124001 2.Mr. Charwidan, H No. 24, Ward NO. 10, Shall Hand, Hians, Hanna - 12510 3. Mis. Savitri Housing Pvt Lidd, Stephen house. 4 BBD Bage (E), Room no 54, 1st floor, Kokata-700001	Residential cum commercial property bearing Minicipal ND 7.2558, messuring about-189.4 kay, rds. statuad as tab hash Nager, Kaya Charlon Bayh, Neu Deharl 10006 in the name of Mis Savtir Housing PrLLB & bounded as: -North: -Pit No-2528, SOUTH - Pic No-2540, EAST: -Pid No-2538, VCBST- Road (Original Title/Sale Deed seized by the CBI in RC CBI RC/2019/2017/E10003)	Physical Possession	Rs. 20,92,08,791/- as on 30.04.2014 with further interest, expenses and other charges thereon	₹9,22,25,000/- ₹92,22,500/- ₹9,23,000/-	12-06-2024 12:00 Noon to 05:00 PM (with unlimited extension of 10 minutes each)	(Original Title/Sale Deed seized by the CBI in RC CBI/RC/2019/2017/E /0003)			
For registration, login and bidding rules visit https://www.msteecommerce.com/auctionhome/bap/index.jsp EMD amount can be submitted on or before commencement of e-auction - For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in/english/TendelViewAllAuction.aspx - For Properties Serial No. 1 & 2 Authorised Officer is Mr. Vinod Kumar Sondhi, Chief Manager, Mobile No. 8580025316. - For Properties Serial No. 2 A subtorised Officer is Authorised Officer is Authorised Officer in Wethorised Officer in Wethorised Officer is Authorised Officer in Wethorised Officer is Authorised Officer in Wethorised, Chief Manager, Mobile No. 8580025316.										

 For Properties Serial No. 3 & 4 Authorised Officer is Authorised Officer-Mr. Ved Prakash, Chief Manager, M-9416079402.
 For Properties Serial No. 5, 6 & 7 Authorised Officer is Authorised Officer-Ms. Neha Bansal, Chief Manager, Mobile-9729146633. Date : 24-05-2024, Place : New Delhi

financialexp.epapr.in

Authorised Officer, Union Bank of India New Delhi